



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान  
जोधपुर, राजस्थान



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-01-2021

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-01-25 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-01-26	2021-01-27	2021-01-28	2021-01-29	2021-01-30
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	23.0	24.0	24.0	24.0	24.0
न्यूनतम तापमान(से.)	6.0	7.0	8.0	6.0	7.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	71	61	48	52	55
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	23	21	17	18	19
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	11.0	13.0	12.0	12.0	10.0
पवन दिशा (डिग्री)	20	50	50	50	50
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आने वाले पांच दिनों में मौसम साफ रहने की सम्भावना ।

### सामान्य सलाहकार:

चने में फली बनने की अवस्था पर फली छेदक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु इण्डोक्साकार्ब 14.5 एस.सी. 1 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से बचाने के लिए टिकाकरण कराएं।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
सरसों	सरसों की फसल में सफेद रोली रोग के नियंत्रण के लिए 2 किलो मैन्कोजेब का प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
गेहूँ	गेहूँ की फसल में बालियां आना शुरू होने पर बुवाई के 70 दिन बाद सिंचाई करें।
टमाटर	टमाटर में फल छेदक के नियंत्रण हेतु एसीफेट 75 एस.पी. 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

**पशुपालन विशिष्ट सलाह:**

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	दुधारु एवं नवजात पशुओं को शीत लहर से बचाने के समुचित प्रबन्ध करें। रात्रि में पशु घर के द्वार पर टाटी या जूट की बोरी लगा कर रखें तथा दुधारु एवं नवजात पशु की पीठ के चारों ओर जूट की बोरी बांधें।

**अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:**

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	सौंफ की फसल में पुष्प अवस्था पर 15-20 दिनों के अन्तराल पर सिंचाई करते रहे।